

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 403]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 27 जुलाई 2021 — श्रावण 5, शक 1943

कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 24 जुलाई 2021

अधिसूचना

क्रमांक 3737/एफ-03/28/विविध/ 2019/14-2.— राज्य शासन, एतद् द्वारा महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (क्र. 23 सन् 2019) की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, पाटन, दुर्ग परिनियम, 2020 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त परिनियम में,—

- परिनियम 10 के खण्ड (2) में, शब्द, अंक एवं चिन्ह “धारा 19 की उप-धारा (3) के खण्ड (क), (ख) एवं (ग)” के स्थान पर, शब्द, अंक एवं चिन्ह “धारा 19 की उप-धारा (3) के खण्ड (क), (ख), (ग) एवं (घ)” प्रतिस्थापित किया जाये।
- परिनियम 17 के शीर्षक में, शब्द “संकायाध्यक्षों की शक्तियां एवं कर्तव्य” के स्थान पर, शब्द, “विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्षों की शक्तियां एवं कर्तव्य” प्रतिस्थापित किया जाये।
- परिनियम 17 के खण्ड (1) में, शब्द, “सिफारिशें” के स्थान पर, शब्द, “सिफारिश” प्रतिस्थापित किया जाये।
- परिनियम 23 के खण्ड (4) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:—  
“(5) वित्त समिति”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के.सी.पैकरा, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 24th July 2021

### NOTIFICATION

No./3737/F-03/28/ misc/ 2019/14-2.— In exercise of the powers conferred by Section 39 of the Mahatma Gandhi Udyanikee Evam Vanikee Viswavidyalaya Adhiniyam, 2019 (No. 23 of 2019), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Mahatma Gandhi Udyanikee Evam Vanikee Viswavidyalaya, Patan, Durg Statutes, 2020, namely:-

### AMENDMENT

In the said statutes,-

1. In clause (2) of Statute 10, for the words, figures and symbol "clause (a), (b) and (c) of sub-section (3) of Section 19", the words, figures and symbol "clause (a), (b), (c) and (d) of sub-section (3) of Section 19" shall be substituted.
2. In the title of Statute 17, for the words "Powers and Duties of Deans of Faculties", the words "Powers and Duties of the Deans of Faculties of University" shall be substituted.
3. In clause (1) of Statute 17, for the word "recommendations", the word "recommendation" shall be substituted.
4. After clause (4) of Statute 23, the following shall be added, namely:-  
"(5) Finance Committee."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
K.C.PAINKARA, Joint Secretary.

अटल नगर, दिनांक 24 जुलाई 2021

### शुद्धि पत्र

क्रमांक 3739/एफ-03/28/विविध/ 2019/14-2.— छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 06 मार्च, 2020 में यथा प्रकाशित महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, पाटन, दुर्ग परिनियम, 2020 संबंधी अधिसूचना क्रमांक/1361/एफ-03/28/विविध/2019/14-2, दिनांक 02 मार्च, 2020 के हिन्दी संस्करण में—

1. परिनियम 2 के खण्ड (क) में, अंक "25" को, "23" पढ़ा जाये।
2. परिनियम 6 के खण्ड (क) के उपखण्ड (एक) में, अंक "3.1" को, "31" पढ़ा जाये।
3. परिनियम 13 में, जहां कहीं भी शब्द "संकायाध्यक्ष" आया हो को, शब्द "संकायाध्यक्ष (डीन)" पढ़ा जाये।
4. परिनियम 20 में, जहां कहीं भी शब्द "मंडल" आया हो को, "बोर्ड" पढ़ा जाये।
5. परिनियम 23 में, शब्द "प्राधिकारियों" को, शब्द "प्राधिकरणों" पढ़ा जाये।
6. परिनियम 35 में, शब्द "अधिकारी-मंडल" को, शब्द "अधिकारी-बोर्ड" पढ़ा जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के.सी.पैकरा, संयुक्त सचिव.